

ब्रेन इंटरनेशनल स्कूल

विषय- हिंदी

कक्षा- नवीं

Assignment अप्रैल -2021-22

प्रश्न-1 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

अपने देश की सीमाओं की दुश्मन से रक्षा करने के लिए मनुष्य सदैव सजग रहा है। प्राचीन काल में युद्ध क्षेत्र सीमित होता था तथा युद्ध धनुष-बाण, तलवार, भाले आदि द्वारा होता था, परंतु आज युद्धक्षेत्र सीमाबद्ध नहीं है। युद्ध में अंधविश्वास से हटकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। आज विज्ञान ने लड़ाई को एक नया मोड़ दिया है। अब हाथी, ऊँट, घोड़ों का स्थान रेल, मोटरगाड़ियों और हवाई जहाजों ने ले लिया है। धनुष-बाण आदि का स्थान बंदूक व तोप की गोलियों और रॉकेट, मिसाइल, परमाणु तथा प्रक्षेपास्त्रों ने ले लिया है और उनके अनुसार राष्ट्र की सीमाओं के प्रहरियों में अंतर आया है। अब मानव प्रहरियों का स्थान बहुत हद तक यांत्रिक प्रहरियों ने ले लिया है जो मानव से कहीं अधिक सजग, त्रुटिहीन और क्षमतावान् हैं। आधुनिक प्रहरियों में रेडार, सौनार, लौरान, शौरान आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। यहाँ रेडार का वर्णन किया जाता है। रेडार का उपयोग द्वितीय विश्वयुद्ध में प्रारंभ हुआ। 'रेडार' शब्द 'रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग' के प्रथम अक्षरों से बना है। इसका अर्थ यह भी है कि किसी भी रेडार से एक निश्चित क्षेत्र के अंदर ही वायुयान की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। यदि जहाज उस 'रेंज' से बाहर है तो पता नहीं लगाया जा सकता। रेडार एक अति लाभदायक व महत्त्वपूर्ण प्रहरी है, जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से उड़ते हुए शत्रु के विमानों की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।

क) प्राचीन काल और आज के युद्ध में क्या अंतर है ?

ख) विज्ञान की लड़ाई ने कैसा मोड़ लिया है ?

ग) मानव प्रहरियों का स्थान अब किसने ले लिया है ?

घ) 'रेडार' का मुख्य रूप से क्या प्रयोग है ? (सही विकल्प चुनिए)

- i. शत्रु के विमानों पर प्रहार करना
- ii. शत्रु के विमानों की सही स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना ।
- iii. उपरोक्त दोनों
- iv. कोई भी नहीं

प्रश्न-2 निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) बुढ़िया रो क्यों रही थी ? (सही विकल्प चुनिए)

- i. उसकी बहू मर गई थी
- ii. उसके घर में चोरी हो गई थी
- iii. उसका बेटा मेर गया गया था
- iv. उपरोक्त सभी

- (ख) अपने जीवन के अंतिम क्षणों में गिल्लू के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया ?
- (ग) लेखक का कुँ के अंदर जाकर पत्र लाने का निर्णय सही था या गलत ?

प्रश्न-3 निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार या अनुनासिक लगाएँ ।
गगा , पतग ,सगीत , झाकिया ,खासी , चूड़िया

प्रश्न-4 शब्द तथा पद में अंतर स्पष्ट कीजिए ।

प्रश्न-5 वाक्य किस-से बनता है ?

- (क) शब्द
(ख) पद
(ग) अक्षर
(घ) उपरोक्त सभी

प्रश्न-6 'महँगाई : एक भयंकर समस्या' विषय पर 80-100 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए ।